


# प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days “Mid Career Training Programme ”

दिनांक 23-05-2022 से 27-05-2022

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 23-05-2022 से 27-05-2022 तक “Mid Career Training Programme ” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कान्फ्रेन्स हॉल न0 03 में आयोजित किया गया। उक्त कोर्स हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एवं श्री उमेश मिश्रा, आईपीएस, महानिदेशक (इन्टेलीजेन्स) राजस्थान के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से बैच संख्या 1998, 1999 एवं 2001 के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 09:45 AM to 10:00 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में श्री उमेश मिश्रा, आईपीएस, महानिदेशक (इन्टेलीजेन्स) राजस्थान ने विभिन्न रेंजो के आपराधिक परिदृश्य पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री शरत कविराज, आईपीएस, महानिरीक्षक पुलिस, एससीआरबी, ने राजस्थान में सीसीटीएनएस और पुलिस द्वारा प्रयोग किये जा रहे ऐप पर विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री विजय कुमार सिंह, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, ने सुरक्षित सड़कें:- सड़क सुरक्षा- यातायात प्रबंधन पर व्याख्यान दिया। चतुर्थ सत्र में श्री अभय कुमार, आईएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, ने कोर्स का औपचारिक उद्घाटन कर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फोरेंसिक सलाहकार एवं श्री यतीन्द्र, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने साइबर अपराधों की जांच हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। द्वितीय सत्र में देवेश चंद्र श्रीवास्तव महानिदेशक पुलिस मिजोरम ने पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तृतीय सत्र में श्री भूषण जी बोरासे, आईपीएस, सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, तेलंगाना ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकॉरेन्सी पर व्याख्यान दिया। चतुर्थ सत्र में प्रो. ममता चौहान, एसआईएफयू, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर ने नेतृत्व और टीम निर्माण के बारे में व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री मोहन लाल लाठर, आईपीएस, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर ने प्रतिभागियों को राजस्थान राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था एवं पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा कर उनसे निपटने के उपायों पर प्रकाश डाला एवं श्री सुनील दत्त, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीकी सेवाएं, राजस्थान, ने संचार और मीडिया: सोशल मीडिया का उपयोग के बारे में व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री संजय अग्रवाल, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज, राजस्थान ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने वाली शहरी पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तृतीय सत्र में श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एन.सी.बी., दिल्ली ने नार्को आतंकवाद (ऑनलाइन) पर विस्तार से बताया। चतुर्थ सत्र में डॉ. रवि, आईपीएस, उप महानिरीक्षक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान, ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध का अनुसंधान और पुलिस की भूमिका के बारे में बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में प्रो. राधा रानी, डीन, रिसर्च एंड एकेडेमिया लीकेज, नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मनोविश्लेषण और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री विशाल बंसल, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग, राजस्थान ने सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का अवलोकन पर चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री एच0ओ0 अत्री, जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर ने न्यायालयों में विचारण : कमियों पर विस्तार से बताया। चतुर्थ सत्र में श्री सत्य नारायण साबत, आईपीएस, डी.जी. पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश ने भीड़ प्रबंधन कुंभ मेले के विशेष संदर्भ में (ऑनलाइन) विस्तार पूर्वक चर्चा की।

पंचम दिन के प्रथम सत्र में डॉ रोहित कुमार, ने डार्क नेट और वीपीएन एवं श्री रमेश चौधरी, पीओ, आरपीए, जयपुर ने कानून में नवीनतम संशोधन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। द्वितीय सत्र में श्री विपुल मुदगल, कॉमन कॉज ऑर्गनाइजेशन एवं श्री सुधीर प्रताप सिंह, आईपीएस, डी.जी. (सेवानिवृत्त) ने भारत में पुलिस की स्थिति के बारे में पैनल चर्चा कर विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में डॉ रितिका महाजन, सहायक प्रो. प्रबंधन विभाग, एमएनआईटी, जयपुर एवं डॉ मोनिका अग्रवाल ने कार्य तथा जीवन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कोर्स के समापन में श्री यू0आर0 साहू, आईपीएस, महानिदेशक

(होमगार्डस) राजस्थान ने कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर  
कोर्स निदेशक